

अध्याय 181: Describing Trends & Data — seedha, simple, stylish Hinglish

Arre yaar, boss! Charts देखकर घबराने की ज़रूरत ही क्या है? Aaj हम सीखेंगे data aur trends ko easy English में describe करना — meeting हो, report हो, ya classroom presentation — tum bina अटक-अटक बोलेगे.

(1) “Describing trends and data” क्या होता है?

- Meaning (simple): Numbers, charts, ya graphs में जो pattern दिखे — ऊपर जाना, नीचे आना, स्थिर रहना, उछलना-कूदना — उसे साफ़ English में बताना.
- Hindi sense: “डेटा क्या बता रहा है” — growth, decline, stability, fluctuations.

Short formula: number + verb + degree + time.

- Example: “Sales increased sharply in Q2.”

(2) कब और कैसे use करें?

- कब: reports, meetings, presentations, exams (IELTS/Business), marketing updates.
- कैसे: clear क्रियाएँ + degree words + time marker + comparison.
 - Verbs (movement): rise, grow, increase, climb, fall, drop, decline, plunge, recover, stabilize, fluctuate.
 - Degree (how much): slightly, steadily, sharply, significantly, dramatically, marginally, gradually.
 - Time: in Q1, from Jan to Mar, over five years, year-on-year.
 - Compare: compared to, versus, higher/lower than, by X percent.

Quick frames:

- X increased by Y (amount/percent) in PERIOD.
- X is higher/lower than Y.
- X remained stable around VALUE.
- After a drop, X recovered to VALUE.

Pro tips:

- Start broad, then detail: overview → key changes → reasons (if known) → takeaway.
- Avoid guesswork; stick to what the chart shows.

(3) 20 Example Sentences (English + Hindi)

- (1) Sales increased slightly in January. = जनवरी में बिक्री में हल्की बढ़ोतरी हुई।
- (2) Revenue grew steadily from Q1 to Q3. = Q1 से Q3 तक आय लगातार बढ़ी।
- (3) Costs fell sharply in April. = अप्रैल में लागत तेज़ी से घटी।
- (4) The number of users declined gradually. = उपयोगकर्ताओं की संख्या धीरे-धीरे घटी।
- (5) Profits remained stable around \$10k. = मुनाफ़ा लगभग \$10k के आसपास स्थिर रहा।
- (6) Website traffic fluctuated throughout the week. = पूरे सप्ताह वेबसाइट ट्रैफिक में उतार-चढ़ाव रहा।
- (7) Conversions dropped by 12% in May. = मई में कन्वर्ज़न 12% घटे।
- (8) Sign-ups rose by 500 in two days. = दो दिनों में साइन-अप 500 बढ़े।
- (9) Q2 performance was higher than Q1. = Q2 का प्रदर्शन Q1 से बेहतर रहा।
- (10) The growth rate slowed down after June. = जून के बाद वृद्धि की रफ़्तार धीमी हुई।
- (11) There was a significant jump in July. = जुलाई में महत्वपूर्ण उछाल आया।
- (12) Engagement peaked on the weekend. = वीकेंड पर एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा रहा।
- (13) Attendance dipped slightly on Monday. = सोमवार को उपस्थिति थोड़ी घटी।
- (14) Year-on-year, revenue improved by 9%. = साल-दर-साल आय 9% बढ़ी।
- (15) After a brief fall, sales recovered quickly. = थोड़ी गिरावट के बाद बिक्री जल्दी संभली।
- (16) The average order value edged up to \$35. = औसत ऑर्डर मूल्य थोड़ा बढ़कर \$35 हो गया।
- (17) Customer churn decreased marginally. = कस्टमर churn मामूली रूप से घटा।

(18) Mobile traffic overtook desktop in 2024. = 2024 में मोबाइल ट्रैफिक डेस्कटॉप से आगे निकल गया।

(19) The chart indicates consistent growth. = चार्ट लगातार वृद्धि दिखाता है।

(20) Overall, the trend is positive. = कुल मिलाकर रुझान सकारात्मक है।

(4) छोटी Vocabulary

Increase (rise/grow): बढ़ना

Decrease (fall/drop): घटना

Stable/Flat: स्थिर

Fluctuate: उतार-चढ़ाव होना

Gradual: क्रमिक/धीरे-धीरे

Sharp/Significant: तेज़/महत्वपूर्ण

Peak/Trough: उच्चतम/न्यूनतम बिंदु

Recover/Rebound: वापसी/संभलना

Surge/Spike: अचानक उछाल

Dip/Slump: गिरावट

YoY/MoM/QoQ: year-on-year / month-on-month / quarter-on-quarter (वाई-ओ-वाई / एम-ओ-एम / क्यू-ओ-क्यू)

Average (avg): औसत

Median: मध्य मान

Outlier: असामान्य मान

Quick patterns (ready-to-use)

- X increased by Y% to Z. (from A to Z भी चलेगा)
- X decreased from A to B, then stabilized.
- X is X% higher than last year.

- X fluctuated between A and B.
- After peaking at A, X fell to B.

Funny Recap (दोस्ती वाला)

- दोस्त: “Boss, chart देखकर क्या बोल्ँ?”
- तुम: “Arre yaar, बस तीन steps:
- Overview: ‘Overall, trend positive/negative है।’
- Details: ‘It rose/fell sharply/gradually from A to B in Q2.’

Wrap-up: ‘After a dip, it recovered and stabilized.’

Bas — numbers ko sentence में डालो, और meeting में सब बोलें: arey wah, data-ninja!”